

Fake Currency in Khargone: खरगोन में त्योहार में नकली नोट चलाने निकले दो आरोपित गिरफ्तार



Fake Currency in Khargone: खरगोन (नईदुनिया प्रतिनिधि)। त्योहारों के चलते बाजार में भीड़भाड़ रहती है और बदमाश इसका फायदा उठाने के लिए नकली नोट चलाने बाजार में निकले। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ऐसे दो आरोपितों को शहर के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। इनसे 200 के कुल 23 और 100 रुपये का एक नकली नोट जब्त किया गया। आरोपितों से एक बाइक भी जब्त की गई है। जब्त नकली नोट एक ही सीरीज के पाए गए हैं। बता दें कि निमाड़ क्षेत्र में गणगौर पर्व मनाया जा रहा है। कंट्रोल रूम में बुधवार को एसडीओपी रोहित अलावा और थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने बताया कि सूचना पर टीम गठित कर मौके पर भेजी गई, जहां दो युवक नकली नोट बाजार में खपाने की फिराक में थे।

आरोपितों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। आरोपितों ने अपने नाम 33 वर्षीय रविंद्र बुंदेला निवासी भोकले कालोनी खरगोन और 30 वर्षीय अमित पटेल निवासी टवड़ी मोहल्ला खरगोन बताया। कार्रवाई में रविंद्र से 200 के 14 और 100 रुपये का एक नकली नोट पकड़ा गया। अमित के पास से 200 रुपये के नौ नकली नोट पकड़े गए। बुधवार को आरोपितों को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है।

कहां से लाए, कितने खपाए इसकी जानकारी नहीं

आरोपितों ने नकली नोट छापे या किसी से खरीदे और कितने नकली नोट बाजार में चला दिए, अभी इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं है। एसडीओपी अलावा ने बताया कि रिमांड में आरोपितों से सारी जानकारी ली जाएगी। यदि किसी से नकली नोट खरीदे हैं, तो अन्य आरोपितों को भी पकड़ा जाएगा। कार्रवाई में एसआई नीरज लोधी, ललीत भावसार, रविंद्र जाधव, आशीष चौहान, अजय सिरोही, संतोष शुक्ला आदि शामिल रहे।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/khargone-fake-currency-in-khargonetwo-accused-arrested-with-fake-notes-of-4700-rupee-in-khargone-7435678>